



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24--जनवरी 30, 2004 (माघ 4, 1925)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24,--JANUARY 30, 2004 (MAGHA 4, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	55	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड--(iii)—भारत सरकार पृष्ठ के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृतपाठ (ऐसे भागों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	55	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	31
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	63	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्रवाई द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	221
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—पुष्प श्रावकों के प्राधिकार के अधीन श्रवका द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	99
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	27
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1-421GU/2003

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	55	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	55	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	31
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	63	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	221
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	..	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	..	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	99
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	..	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	27
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग 1—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा०-II—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) की धारा 209 क की उपधारा (I) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० राजगोपालन, उप-निदेशक (निरीक्षण) को कंपनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राविष्ट करती है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा०-II—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) की धारा 209 क की उपधारा (I) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री डी० आर० चतुर्वेदी, उप-निदेशक (निरीक्षण) को कंपनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राविष्ट करती है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(पशु पालन और डेरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 नवम्बर 2003

संकल्प

सं० 11-2/2002 प्रशा०-4—इस मंत्रालय के दिनांक 26 जून, 2002 और 10 जुलाई, 2002 के समसंख्यक संकल्प संग्रह के अतिरिक्त भारत सरकार एतद्वारा दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्धन समिति को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करती है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :—

1. संयुक्त सचिव (डीडी) — अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त) — सदस्य
3. श्री अरुण जैन — उपभोक्ता प्रतिनिधि
4378-B
प्रकाश भवन,
दरभानाज, अंसारी रोड
नई दिल्ली-110002

4. श्री जयपाल सिंह — उपभोक्ता प्रतिनिधि
पूर्व मंत्री
(पशुपालन एवं डेरी)
मंगल पांडे नगर
मेरठ (उ० प्र०)
फोन-0121-2772046

5. महाप्रबंधक (जे एम एस) — सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार, सी० ए०, कृषि और सहकारिता विभाग, प्रधान लेखा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, मेयर, दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

तपेश पवार, संयुक्त सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2004

विषय : अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आदिम जनजातियों की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में विशेषज्ञ दल का गठन।

सं० 17014/2/2001-एस एंड एम (भाग-II)—उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 8-5-2003 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए विशेषज्ञ दल के संगठन तथा अधिसूचना में उल्लिखित अन्य नियम व शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं :—

- (1) उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा-1 में यथा उल्लिखित विशेषज्ञ दल के संगठन के अतिरिक्त इस समूह में

निम्नलिखित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा :—

1. प्रो० विश्वजीत पांडेया,
प्रोफेसर - मानव शास्त्र,
वीरूभाई अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान,
गांधीनगर-382009, गुजरात, पोस्ट बॉक्स नं० 4,
मोबाइल नं० 098980245, 3243588
(फैक्स)
2. डॉ० सुदर्शन
अद्वैतिक महासचिव,
विश्वकान्त गिरिजा कल्याण केन्द्र,
बी० आर० हिल्स, यलांदूर तालुक,
जामराज नगर जिला,
फोन-571441,
मोबाइल नं० 09845055364
ई-मेल-vggk@vsnl.com
3. प्रो० आर० के० जैन,
प्रोफेसर-मानव शास्त्र, (सेवानिवृत्ति)
अनाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली।
4. श्रीमती लिछु,
मुमुवी जिराके,
अंडमानी जनजाति के प्रधान,
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह।

5. श्री बक्तावर सिंह,
सेवानिवृत्त कार्यकारी सचिव,
अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति,
पोर्ट ब्लेयर।
6. श्री विजय कुमार मेहंती,
श्रीराम बनवासी छात्रावास,
महादेव रोड, भवारी, बिना सजना,
(मठ प्रदेग)।

(2) यह समूह अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के अंदर केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, यह दल अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की आदिम जनजातियों के विकास के लिए मार्गदर्शन हेतु तीन और वर्षों तक कार्य करता रहेगा जब तक कि आदिम जातीयों विकास में तेजास संस्थान विनिर्दिष्ट हो जायें।

(3) यह समूह निम्न रिपोर्टों को छोड़कर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समस्त आदिम जनजातियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा और उन्हें उनके पूर्ण रूप से विलुप्त होने अथवा अपनी पहचान व संस्कृति खोने के खतरे से बचाने के लिए योजनाएं तैयार करते हुए केन्द्र सरकार एवं अंडमान व निकोबार शासन का उपायसमूह तैयार कराएगा।

2. उपर्युक्त अधिवृत्त में उल्लिखित और सभी नियम तथा शर्तें धारित रहेंगी।

एस० चैतनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND
COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 29th December 2003

No. A-42011/21/2002-Ad. II—In exercise of powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri P. Rajagopalan, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT,
Under Secretary

No. A-42011/21/2002-Ad. II—In exercise of powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of

1956), the Central Government hereby authorise Shri D.R. Chaturvedi, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT,
Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
& DAIRYING)

New Delhi, the 21st October 2003

RESOLUTION

No. 11-2/2002-Admn. IV—In supersession of this Ministry's Resolutions of even number dated the 26th June, 2002 and 10th July, 2002, the Government of India hereby reconstitutes the

Management Committee of Delhi Milk Scheme with immediate effect, with the following composition :-

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Joint Secretary (DD) | — | Chairman |
| 2. Director (Finance) | — | Member |
| 3. Shri Arun Jain | — | Consumer Representative |
| 4378-B, Prakash Bhavan,
Daryaganj, Ansari Road,
New Delhi-110002. | | |
| 4. Shri Jai Pal Singh | — | Consumer Representative |
| Ex. Minister,
(Animal Husbandry & Dairy),
Mangal Pandey Nagar,
Meerut (U. P.)
Tel.-0121-2772046. | | |
| 5. General Manager (DMS) | — | Member Secretary |

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the CCA D.O Agriculture & Co-operation, the Principal Director of Audit, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the Chairman, New Delhi Municipal Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

TAPESH PAWAR
Joint Secretary

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th January 2004

Subject: Expert Group constituted by the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of assessing the problems of the Primitive Tribes in the Andaman & Nicobar Group of Islands.

No. 17014/2/2001-S & M (Pt.II)—In Partial modification of this Ministry's Notification of even No. dated 8-5-2003, on the above subject, the following changes are made in the composition of the Expert Group and other terms and conditions mentioned in the Notification :—

- (1) In addition to the composition of the Expert Group, as mentioned in para 1 of

the above Notification, the Group will also include the following Members :—

1. Prof. Vishwajit Pandya,
Professor in Anthropology,
Dhruvaji Ambani Institute of
Information and Communication
Technology, Gandhi Nagar-382 009,
Gujarat. Post Box No. 4,
Mobile No. 998980245, 3243588(Fax).
2. Dr. Sudarshan
Honorary General Secretary
Vivekananda Girija Kalyan Kendra
B. R. Hill, Yalandoor Taluk,
Chamraj Nagar District,
Karnataka-571 441,
Mobile No. 09845055364
e-mail—vgkk@vsnl.com
3. Prof. R. K. Jain
Professor of Anthropology (Retd.),
Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi.
4. Smt. Lichu,
D/o Jirake,
Chief of Andamane Tribe
Andaman & Nicobar Islands
5. Shri Bhaktawar Singh
Retired Executive Secretary
Andaman Adim Janjati Vikas Samiti
Port Blair.
6. Shri Bijay Kumar Mohanty
Shriram Vanvashi Chatravas
Mahadev Road, Bhawari, Distt. Satna
(Madhya Pradesh).

- (2) The group shall submit its report to the Central Government within one year from the date of its constitution. After Submission of the report, the group will continue for three more years to guide the development of primitive tribals in the Andaman & Nicobar Islands, till the time the institutions serving the primitive tribals develop.
- (3) The Group shall clearly spell out in its report the problems being faced by all the primitive tribes of A & N Island, except the

Nicobarese and suggest remedial measure to enable the Central Government and the A & N Administration to formulate plans and programmes to save them from the danger of total extinction or of losing their identity and culture.

2. All other terms and conditions, mentioned in the above notification, will remain unchanged.

S. CHATTERJEE,
Joint Secretary